



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 भाद्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 721) पटना, शुक्रवार, 13 सितम्बर 2013

---

#### बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

##### अधिसूचना

10 सितम्बर 2013

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-08/2012/1003—बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 के प्रावधानों के आलोक में बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन संचालन के लिए सभी जिला पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) पदनामित किया जाता है।

3. उक्त सभी स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन संचालन के लिए सभी उप-विकास आयुक्त/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी

(सहयोग समितियाँ) पदनामित किया जाता है। उक्त सभी पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त सभी स्वाबलम्बी सहकारी समितियों का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

4. उक्त स्वाबलम्बी सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,

फूल सिंह,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 721-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>